

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1982/फाल्गुन 14, 1903
No. 8] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1982/PHALGUNA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1982

सं. ए. 12026/3/81-प्रशा. 1/(वि. का.) :—विदेशी मूत्रा विनियमन
अधिनियम, 1973 (1973 का 48) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री वि. रामकृष्ण राव को
जो विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में केन्द्रीय
विधि सेवा के ग्रेड 1 (संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार) के अधिष्ठायी
अधिकारी हैं और इस समय रेल मंत्रालय के रेल बोर्ड के विधि
सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, नई दिल्ली स्थित विदेशी मूत्रा विनियमन

अपील बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 5 मार्च, 1982 को पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक नियुक्त करती है ।

पी. के. कर्था, संयुक्त सचिव
और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 1982

No. A. 12026/3/81-Admn. I(LA).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby appoints Shri Ch. Ramakrishna Rao, a substantive Grade I officer of the Central Legal Service (Joint Secretary and Legal Adviser) in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs and presently working as Legal Adviser, Railway Board, Ministry of Railways, as Chairman of the Foreign Exchange Regulation Appellate Board, New Delhi, with effect from the forenoon of the 5th March, 1982, and until further orders.

P. K. KARTHA, Jt. Secy. and Legal Adviser